

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 233.]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 जून 2014—ज्येष्ठ 16, शक 1936

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 जून 2014

क्र. एफ-4-4-2013-चौवन-2.—वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 13(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 14(1) बी (iii) में निहित प्रावधान अनुसार, राज्य विविध परिषद्, मध्यप्रदेश द्वारा निर्वाचित मुस्लिम विधिक सदस्य श्री मो. महबूब अंसारी, एडवोकेट भोपाल को मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल में सदस्य नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. खैरवार, उपसचिव.